

Roll No.

Total Printed Pages - 16

F - 129

**M.COM. (Fourth Semester)
EXAMINATION, MAY-JUNE, 2022**

(Optional - Specialization)
(Optional Group-D : Taxation and Accounting)
Paper D-II
INTEGRATED GOODS AND SERVICES TAX

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

नोट : निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

Note : Attempt all sections as directed.

खण्ड - अ

(Section-A)

(वस्तुनिष्ठ/बहुविकल्पीय प्रश्न)

(Objectives/Multiple Choice Questions)

(1 mark each)

नोट- सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Note- Attempt all questions.

सही उत्तर का चयन कीजिए।

Choose correct answer.

P.T.O.

[2]

1. जी.एस.टी. चुकाने के लिए उत्तरदायी है-

- (A) उद्योगपति
- (B) व्यापार स्वामी
- (C) पंजीकृत पूर्तिकर्ता
- (D) अपंजीकृत पूर्तिकर्ता

Liable for GST payment -

- (A) Industrialist
- (B) Bussiness Owner
- (C) Registered Supplier
- (D) Unregistered Supplier

2. जी.एस.टी. परिषद का चेयरमैन होता है-

- (A) अप्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्य आयुक्त
- (B) केन्द्रीय वित्तमंत्री
- (C) प्रधानमंत्री
- (D) नीतिआयोग का अध्यक्ष

Chairperson of GST council is-

- (A) Chief commissioner of indirect taxes
- (B) Union finance minister
- (C) Prime minister
- (D) President of NITIAayog.

F - 129

[3]

3. जी.एस.टी. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है-

- (A) 1 जुलाई से 31 दिसंबर
- (B) 1 अप्रैल से 31 मार्च
- (C) व्यापारी की लेखा अवधि
- (D) उपर्युक्त कोई भी

Year meant under GST-

- (A) 1st July to 31st December
- (B) 1st April to 31st March
- (C) Accounting period
- (D) Any of above

4. रिवर्स चार्ज में कर दायित्व होता है-

- (A) पूर्तिकर्ता पर
- (B) प्राप्तिकर्ता पर
- (C) अनरजिस्टर्ड व्यक्ति पर
- (D) उपर्युक्त किसी भी व्यक्ति पर

Tax liability in case of reverse charge arise on-

- (A) Supplier
- (B) Recipient
- (C) Unregistered dealer
- (D) Any of above

[4]

5. सेवा की पूर्ति के समय निर्धारण की धारा है-

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14

Section related to supply time of services-

- (A) 11
- (B) 12
- (C) 13
- (D) 14

6. सेवा की पूर्ति का समय होगा-

- (A) बीजक जारी करने की तिथि
- (B) भुगतान प्राप्त करने की तिथि
- (C) बीजक नहीं जारी करने पर सेवा के प्रावधान की तिथि
- (D) उपर्युक्त में जो पहले हो

Time of supply of service will be-

- (A) Date of issue of invoice
- (B) Date of payment
- (C) Provision of services of invoice not issued
- (D) Which is earlier

[5]

7. एकीकृत जी.एस.टी. चुकाया जाएगा-

- (A) पूर्ति करने वाले के राज्य में
- (B) प्राप्तकर्ता के राज्य में
- (C) कहीं भी
- (D) रायपुर में

Integrated GST shall be paid in the-

- (A) State of supplier
- (B) State of recipient
- (C) Any where
- (D) In Raipur

8. माल एवं सेवाकर अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यापारी का पंजीयन-

- (A) अनिवार्य होता है
- (B) स्वैच्छिक होता है
- (C) (A) तथा (B) दोनों
- (D) इनमें से कोई नहीं

A dealer may be registered under GST Act-

- (A) Compulsorily
- (B) Voluntarily
- (C) (A) and (B) both
- (D) Neither of these

[6]

9. किसानों को पूर्ति की दशा में करमुक्त माल नहीं है-

- (A) कृषि उपकरण
- (B) प्रमाणित बीज
- (C) रासायनिक खाद
- (D) पशु आहार

Tax free goods are not for farmers in the case of supply-

- (A) Agricultural equipment
- (B) Certified seeds
- (C) Chemical fertilised
- (D) Cattle feed

10. करयोग्य सेवाओं की सूची में शामिल नहीं है-

- (A) वकील
- (B) डॉक्टर
- (C) इंजीनियर
- (D) चार्टर्ड एकाउंटेंट

The following is not included in taxable services-

- (A) Lawyer
- (B) Doctor
- (C) Engineer
- (D) Chartered accountant

[7]

11. जी.एस.टी. की गणना होती है-

- (A) व्यवहार मूल्य पर
- (B) करयोग्य मूल्य पर
- (C) इनपुट छूटें घटाने के बाद देय कर पर
- (D) शुद्ध देय शुल्क पर

GST is calculated on-

- (A) Transaction value
- (B) Taxable value
- (C) Tax payable after deducting input credit
- (D) Net duty payable

12. जीएसटी पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर की दर है-

- (A) 1%
- (B) 2%
- (C) 0
- (D) 4%

Rate of health and education cess is on GST is -

- (A) 1%
- (B) 2%
- (C) 0
- (D) 4%

[8]

13. एक टी.वी. का खुदरा मूल्य जीएसटी (12%) सहित 235200 रु है, करयोग्य मूल्य होगा-

- (A) 17,900 रु
- (B) 21,000 रु
- (C) 22,950 रु
- (D) 20,425 रु

Retail price of a T.V. including GST 12% is -

- (A) 17,900Rs
- (B) 21,000Rs
- (C) 22,950Rs
- (D) 20,425Rs

14. प्रदाय मूल्य में से सेवा प्रदाय की लागत -

- (A) घटाई जाती है
- (B) नहीं घटाई जाती है
- (C) जोड़ी जाती है
- (D) अलग से चार्ज की जाती है

Cost of services supplied-----against value charged.

- (A) Deducted
- (B) Not deducted
- (C) Added
- (D) Charged separately

[9]

15. जी.एस.टी. की प्रमुख दरें हैं-

- (A) 3%,5%,0.25%
- (B) 3%,5%,28%
- (C) 5%,12%,18%,28%
- (D) 3%,28%,29%

Important GST rates are-

- (A) 3%,5%,0.25%
- (B) 3%,5%,28%
- (C) 5%,12%,18%,28%
- (D) 3%,28%,29%

16. डीजल और पेट्रोल पर जी.एस.टी. की दर है-

- (A) 13%,23%
- (B) 23%,27%
- (C) 28%,27%
- (D) लागू नहीं

Diesel and Petrol are taxable under GST -

- (A) 13%,23%
- (B) 23%,27%
- (C) 28%,27%
- (D) Not applicable

[10]

17. कम्पोजिशन की दशा में आगत कर क्रेडिट-

- (A) प्राप्त होती है
- (B) नहीं प्राप्त होती है
- (C) आंशिक रूप से प्राप्त होती है
- (D) केवल पूर्तिकर्ता को प्राप्त होती है

Input tax credit is -----in case of composition-

- (A) Available
- (B) Not available
- (C) Partial available
- (D) Available Only to supplier

18. व्यावसायिक भवन में प्रयुक्त माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रतिशत है-

- (A) Nil
- (B) 25%
- (C) 50%
- (D) 100%

Percentage of input tax credit for goods used in construction of commercial building-

- (A) Nil
- (B) 25%
- (C) 50%
- (D) 100%

[11]

19. इनपुट टैक्स क्रेडिट की शर्त है-

- (A) कर बीजक
- (B) माल की प्राप्ति
- (C) कर का भुगतान
- (D) उपर्युक्त सभी

Condition for ITC-

- (A) Tax invoice
- (B) Receiving of goods
- (C) Payment of tax
- (D) All of above

20. ई-वे बिल जारी करता है-

- (A) पूर्तिकर्ता
- (B) प्राप्तिकर्ता
- (C) ट्रांसपोर्टर
- (D) उपर्युक्त सभी

Generation of E-way bill by-

- (A) Supplier
- (B) Receipient
- (C) Transporter
- (D) All of above

[12]

खण्ड - ब

(Section- B)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

नोट : इस खण्ड से किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर दो या तीन वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न दो अंकों का है।

Note : Write answer of any eight questions from this section in two or three sentences. Each question carries two marks.

1. भारत में जीएसटी प्रणाली कब और कैसे लागू हुई?
When and how GST tax system is adopted in india?
2. एकीकृत जीएसटी को समझाइए।
Discuss integrated GST.
3. जीएसटी अधिनियम में "व्यक्ति" में कौन-कौन शामिल है?
Who are included in the term "person" as per GST Act?
4. माल का प्रदाय कब माना जाता है? विवेचना कीजिए।
When a supply of goods is supply said to take place?
Discuss.
5. पंजीयन हेतु आवेदन के लिए कौन-कौन सी सूचनाएँ देना आवश्यक है?
What type of information are required for application for registration?
6. महिलाओं के उपयोग में आने वाली जी.एस.टी. से मुक्त पाँच वस्तुओं के नाम लिखिए।

[13]

Write the names of five exempted goods under GST which are useful for ladies.

7. क्या सेवा की लागत के संबंध में किये गए व्ययों की कटौती मिलती है?

Is allowed any deduction regarding Cost of Services Supplied?

8. इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस लौटाना को समझाइए।

Discuss the reversal of input tax credit.

9. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता एवं जमा खाता पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on electronic cash ledger and credit ledger.

खण्ड - स

(Section - C)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं आठ प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में दीजिए।
प्रत्येक प्रश्न तीन अंकों का है।

**Note : Attempt any eight questions in about 75 words.
Each question carries 3 marks.**

1. जी.एस.टी. के पाँच दोष बताइए।

Mention any five demerits of GST.

2. भारत में दोहरा जी.एस.टी. क्यों लागू किया गया?

Why dual GST is implemented in india?

[14]

3. जी.एस.टी. कौंसिल की निर्णय प्रक्रिया समझाइए।

Discuss the decision process of GST council.

4. प्रतिफल में क्या-क्या शामिल हैं?

What are included in consideration?

5. कृषि से संबंधित कौनसी सेवाओं पर जी.एस.टी. नहीं लगता है?

Which services related to agriculture are not taxable under GST?

6. किन करों के संबंध में आई.टी.सी. दिया जाता है?

In respect of which taxes ITC is allowed.

7. “विवरणी” से क्या आशय है?

What is meant by "Return"?

8. ई-वे बिल की वैधता पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on validity of E-way bill.

9. विशेष लेखा परीक्षा पर टिप्पणी लिखिए।

Write a note on Special audit.

खण्ड - द

Section D

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

(Long Answer Type Questions)

नोट : किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न पाँच अंकों का है।

Note : Attempt any four questions. Each questions carries 5 marks.

[15]

1. जी.एस.टी. एक्ट की धारा 132 को समझाइए।

Explain section 132 of the GST Act.

2. जी.एस.टी. पोर्टल में फ्रंटेंड व्यावसायिक प्रक्रिया विधि को समझाइए।

Explain Fontend Business Procedure on GST portal.

3. प्रकृति इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्यूनिकेशन माल एवं सेवाओं की पूर्ति करते हैं। माह दिसंबर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना कीजिए।

प्राप्त की गई सामग्री एवं सेवाओं का विवरण इनपुट टैक्स(Rs)

- | | |
|--|--------|
| a. टेली कम्यूनिकेशन टॉवर की स्थापना हेतु प्रयुक्त माल | 87,000 |
| b. फैक्ट्री स्टोर से इनपुट चोरी गए | 23,200 |
| c. कार्यालयीन समय में कर्मचारियों को केटरर द्वारा लंच सुविधा | 9,700 |
| d. फैक्ट्री में इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स | 63,200 |
| e. फैक्ट्री में प्रयुक्त मोल्ड्स व डाईज | 16,000 |
| f. फैक्ट्री में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण | 16,500 |
| g. मार्केट रिसर्च सेवाएँ | 6700 |
| h. किस्म नियंत्रण सेवाएँ | 8,000 |
| i. ऑफिस भवन के निर्माण हेतु ठेका सेवाएँ | 34,000 |

जावक पूर्तियों पर जी.एस.टी. चार्ज किया

गया 1 लाख रूपए। शुद्ध कर दायित्व बताइए।

Prakriti electronics and communication engaged in supplying taxable goods and services. Compute the input tax credit Admissible for month December-

[16]

Particular	Input tax paid(Rs)
------------	--------------------

- | | |
|--|--------|
| a. Goods used for setting up Tele- communication towers | 87,000 |
| b. Inputs stolen from the factory store | 23,200 |
| c. Lunch facility from caterer for the employees during office hours | 9,700 |
| d. Electrical transformers used in the factory | 63,200 |
| e. Moulds and dies used in the factory | 16,000 |
| f. Pollution control equipment used in the factory | 16,500 |
| g. Market research services | 6,700 |
| h. Quality control services | 8,000 |
| i. Work contract services for construction of office building | 34,000 |
- GST charged Rs1 lakh an outward supplies, find out net GST payable liability.

4. जी.एस.टी. से उत्पन्न कठिनाईयों का विवेचन कीजिए एवं समाधान हेतु सुझाव दीजिए।

Point out the difficulties arise to GST and make suggestions to resolve them.

5. ई-वे बिल के निर्गमन, निरस्तीकरण एवं सत्यापन संबंधी प्रावधान बताइए।

Discuss the provisions regarding generation, cancellation and verification of E-way Bill.